



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 99]	नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 20, 2012/पौष 30, 1933
No. 99]	NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 20, 2012/PAUSA 30, 1933

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 2012

का.आ. 109(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1272(अ), तारीख 31 मई, 2011, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 के 176.760 कि.मी. से 199.600 कि.मी. (दिल्ली-आगरा सेक्शन) तक के ५-खण्ड का निर्माण (चौड़ा करने/छह लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना के उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उप-धारा (3) के अधीन तारीख 8 जुलाई, 2011 को "हिन्दुस्तान" और "अमर उजाला" दोनों में प्रकाशित किया गया था;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 के 178.760 कि.मी. से 199.800 कि.मी. तक (दिल्ली-आगरा सेक्शन) के लिए अर्जन जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण ।

क्रम संख्या	जिले का नाम	तालुक का नाम	गाँव का नाम	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल (हेक्टर में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आगरा	1. आगरा	(1) अरतौनी	303	निजी	आबादी	0.060	ओमप्रकाश उर्फ हरीओम पुत्र भगवान अग्रवाल निवासी शहर आगरा, श्रीमती कान्ता गेरा पत्नी नरेन्द्र गेरा नि० 1/288 विकासपुरी न्यू देहली, जयगोपाल ढल, हरीश चन्द्र ढल, तिलकराज पुत्रगण रामजीदास ढल नि० 242 जयपुर हाउस, आगरा।
				गाँव का योग			0.060	
			(2) बाईपुर मुस्तकिल	1236	निजी	आबादी	0.057	जगदीश अरोरा व सुनील अरोरा पुत्रगण बालकिशन अरोरा निवासी 23 खन्दारी रोड, आगरा
				1344	निजी	आबादी	0.003	हरीहरनाथ व फूलचन्द्र पुत्रगण रमेशचन्द्र निवासी- बी 212 जयपुरहाउस कारवान आलमगज लोहा मंडी, आगरा। श्रीमती कामना बाजपेयी पत्नी शेखर बाजपेयी निवासी ए/141/ए-1 प्रोफेसर कालोनी देहली गेट आगरा। शेखर बाजपेयी पुत्र जितेन्द्रनाथ बाजपेयी निवासी ए/141/ए-1 प्रोफेसर कालोनी देहली गेट आगरा।
				1345	निजी	आबादी	0.006	हरीहरनाथ व फूलचन्द्र पुत्रगण रमेशचन्द्र निवासी- बी 212 जयपुरहाउस कारवान आलमगज लोहा मंडी, आगरा। त्रिवेणी इन्फार्स्टेकचर डबलपमेन्ट कंपनी लि० द्वारा पार्टनर सुमित मित्तल पुत्र हरीशचन्द्र मित्तल नि०-ई 323 कमलानगर, आगरा। श्रीमती कामना बाजपेयी पत्नी शेखर बाजपेयी निवासी ए/141/ए-1 प्रोफेसर कालोनी देहली गेट आगरा। शेखर बाजपेयी पुत्र जितेन्द्रनाथ बाजपेयी निवासी ए/141/ए-1 प्रोफेसर कालोनी देहली गेट आगरा।
				1346	निजी	आबादी	0.006	हरीहरनाथ पुत्र रमेशचन्द्र निवासी- बी 212 जयपुरहाउस आलमगज लोहा मंडी, आगरा। फूलचन्द्र पुत्र रमेशचन्द्र निवासी 82 अमृतराजभवन जयपुर हाउस, आगरा।
				1347	निजी	आबादी	0.004	हरीहरनाथ पुत्र रमेशचन्द्र निवासी- बी 212 जयपुरहाउस आलमगज लोहा मंडी, आगरा। फूलचन्द्र पुत्र रमेशचन्द्र निवासी 82 अमृतराजभवन जयपुर हाउस, आगरा।
				गाँव का योग			0.076	
		2. किरावती	(1) कीटम	350	निजी	कृषि	0.060	श्रीमती सुनीता देवी दीक्षित पत्नी बी०पी० निवासी 5/33 मदिवा कटरा, आगरा।

				349	निजी	कृषि	0.036	श्री सचिन पुत्र मुरारीलाल निवासी रैपुरा जाट परगना व जिला मथुरा कमलेश व कृष्ण कुमार पुत्रगण केशवदास निवासी- रैपुरा जाट परगना व जिला मथुरा। लक्ष्मण सिंह पुत्र कंचनसिंह निवासी- 29/133 राजा मंडी आगरा। सत्यदेव, दीनदयाल व राजेन्द्र पुत्रगण हुकमसिंह निवासी- ग्राम कीटन आगरा।
				348	निजी	कृषि	0.002	कमलेश कुमार व कृष्ण कुमार पुत्रगण केशवदास निवासी- रैपुरा जाट परगना व जिला मथुरा।
				342	निजी	आबादी	0.120	महेन्द्र कौर पत्नी सरदार त्रिनाथन सिंह अमरजीत सिंह पुत्र सरदार त्रिनाथन सिंह निवासी- डी कमला नगर आगरा। फूलचन्द बंसल पुत्र रमेशचन्द बंसल, श्रीमती माया देवी बंसल पत्नी फूलचन्द बंसल व राज बंसल पुत्र फूलचन्द बंसल निवासी- 82 जयपुर हाउस आगरा व कुनाल ना० वा० उम्र 14 वर्ष संरक्षिका अनु माता स्वयं पुत्र सुरेन्द्रजीत सिंह, अनु पत्नी सुरेन्द्रजीत सिंह नि० आगरा। परमजीत सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह नि० लायर्स कालोनी आगरा। गुरुप्रीत सिंह पुत्र परमजीत सिंह नि० लायर्स कालोनी, आगरा।
				341	निजी	बंजर/आबादी	0.032	अमित बंसल पुत्र फूलचन्द बंसल नि०- 82 जयपुर हाउस आगरा।
				339	निजी	बंजर	0.041	उमाकास्त, वीरेन्द्र, सुरेन्द्र पुत्रगण जगदीश प्रसाद नि० 9/16 जगदीश निकेतन बाग मुजफ्फर खों, आगरा।
				गाँव का योग			0.291	
		(2) चौमा फरह	1	निजी	आबादी	0.060	श्रीमती शीला देवी पत्नी जगदीश प्रसाद, शिवनरायन पुत्र जगदीश प्रसाद नि०- सी 1/27 जगदीश निकेतन बाग मुजफ्फर खों, आगरा।	
			2	निजी	आबादी	0.022	अनिल कुमार अग्रवाल पुत्र रामेश्वर दयाल, अग्रवाल नि०-3/10/1 सीता कुंज कालोनी दीवानी कचहरी के पीछे आगरा।	
			3	निजी	आबादी	0.034	अनिल कुमार अग्रवाल पुत्र रामेश्वर दयाल अग्रवाल नि०-3/10/1 सीता कुंज कालोनी दीवानी कचहरी के पीछे आगरा। प्रदीप वाष्ण्य पुत्र नत्थीलाल वाष्ण्य नि०-5 एम०जी० रोड आगरा।	
			11	निजी	गाँव	0.096	श्रीमती मंगला मादव पत्नी रामचन्द्र, श्रीमती हरीशवाला पत्नी मोहन नि० 25 25 नया बाँस लोहामंडी आगरा। श्रीमती सीमा अग्रवाल पत्नी अनिल कुमार अग्रवाल नि० 38 नार्थ ईदंगाह, आगरा। अनिल कुमार गर्ग पुत्र गोविन्द प्रसाद नि० विजय नगर कालोनी आगरा।	

			12	निजी	कृषि	0 051	श्रीमती सीमा अग्रवाल पत्नी अनिल कुमार अग्रवाल नि० 38 नार्थ ईदगाह, आगरा। श्रीमती गीता अग्रवाल उर्फ ज्योती अग्रवाल पत्नी राजेश अग्रवाल नि०-26 सुलभ विहार, गंलाना आगरा। उमेश कुमार गुप्ता, मुकेश कुमार गुप्ता, राजीव कुमार गुप्ता, संजय कुमार गुप्ता पुत्रगण राधेश्याम गुप्ता नि० 32 ए/डी 770ए/20एडी बालाजी नगर आगरा। राजेन्द्र कौर पत्नी हरवन्दा सिंह नि० ए-65 कमला नगर आगरा। हरमिन्दर सिंह पुत्र हरवन्दा सिंह नि०-ए-ए 65 कमला नगर आगरा। रमेश कुमार पुत्र पी०आर० शिवानी नि० धौलपुर हाउस आगरा। जितेन्द्र गर्ग पुत्र गोविन्द प्रसाद अग्रवाल नि० 88 पुरानी विजय नगर कालौनी आगरा। अनिल कुमार गर्ग पुत्र गोविन्द प्रसाद नि० 88 विजय नगर कालौनी आगरा।
				गाँव का योग		0.263	
		(3) अरसैना	31	निजी	कृषि/अकृषक	0.082	हाजी सलीमउददीन व हाजी सईउददीन पुत्रगण हाजी सबाबुददीन नि० घटिया मामूभोजा आगरा। इटारस सूद प्रा०लि०मि०इण्डिया स्टेविलिश होवीन आर्टस द्वारा डाइरेक्टर एवं अधिकृत प्रतिनिधि जर्मनो पैसीपेलो पुत्र गुललिमो पैसीपेलो नि०- आफिस न० 3 थम्बू समी रोड काली पार्क चेन्नई।
			32	निजी	कृषि	0.041	इटारस सूद प्रा०लि०मि०इण्डिया स्टेविलिश होवीन आर्टस द्वारा डाइरेक्टर एवं अधिकृत प्रतिनिधि जर्मनो पैसीपेलो पुत्र गुललिमो पैसीपेलो नि०- आफिस न० 3 थम्बू समी रोड काली पार्क चेन्नई।
			35	निजी	कृषि	0 189	अगनलाल पुत्र रामासा नि० स्वातीपाडा लोहामदी, आगरा। फतेह सिंह व टीकम सिंह पुत्रगण प्रमनेलाल नि० जटपुरा लोहा मडी आगरा। श्रीमती गीता पत्नी दालतराम नि० 45 प्रमूनगर आगरा। हिमाशू जैन पुत्र अशोक कुमार जैन नि० 48 सरस्वती नगर फेस प्रथम अवधपुरी, बोदला आगरा। श्रीमती सीमा अग्रवाल पत्नी अनिल अग्रवाल नि० 38 नार्थ ईदगाह कालौनी आगरा। टीकम चन्द पुत्र किशनचन्द नि० 11/8 अशोक नगर आगरा। श्रीमती एकता देवी पत्नी दिनेश चन्द नि० 1/24 खालसा गली रावतपाडा आगरा। उमेश कुमार गुप्ता, मुकेश कुमार गुप्ता, राजीव कुमार गुप्ता, संजय कुमार गुप्ता पुत्रगण राधेश्याम गुप्ता नि० 32 ए/डी 660ए/20ए बालाजीनगर, आगरा। श्रीमती माया देवी अग्रवाल पत्नी महेशचन्द्र अग्रवाल नि० 84-85 बसन्त विहार, कमला नगर आगरा। श्रीमती कमलेश जैन पत्नी महेन्द्र कुमार जैन नि० एफ 209 कमला नगर आगरा। श्रीमती मंछा जैन पत्नी विकास जैन नि० एफ 209 कमला नगर आगरा। श्रीमती सावित्री देवी पत्नी गगनलाल नि० 23 गजाधरधाम खन्दारी आगरा।

				36	निजी	कृषि, कृषि, पशु	0 111	श्री मजीब मित्तल पुत्र लिनश प्रकाश अग्रवाल नि० एफ 037 कमला नगर आगरा। श्रीमती अमिता अग्रवाल पुत्री डा० प्रेम कुमार जैन नि० खतौली जिला मुजफ्फर नगर। श्री मुकेश कुमार अग्रवाल पुत्र कान्ता प्रसाद अग्रवाल नि० डी 15 कमला नगर आगरा।
				37	निजी	कृषि	0 096	श्रीमती पुष्पा देवी मित्तल पत्नी भगवानदास मित्तल नि० 2/9 बडी हवेली नामनर आगरा।
				38	निजी	कृषि	0 080	हीरा सिंह, विजयसिंह, रमेश व अर्जुन पुत्रगण ल्हौरे नि० ग्राम अरसेना आगरा। श्रीमती प्रमा पत्नी ल्हौरे नि० ग्राम अरसेना आगरा। सयाराम पुत्र गंगाराम नि० ग्राम अरसेना आगरा।
				39	निजी	कृषि	0 061	हीरा सिंह, विजयसिंह, रमेश व अर्जुन पुत्रगण ल्हौरे नि० ग्राम अरसेना आगरा। श्रीमती प्रमा पत्नी ल्हौरे नि० ग्राम अरसेना आगरा।
				47	निजी	कृषि	0.144	पन्ना लाल टडन पुत्र प्यार लाल टडन नि० 40 खन्दारी आगरा हाल नि० सी कैलाश रोड, सिकन्दरा, आगरा।
				48	निजी	अकृषक	0 069	श्रीमती कमलेश कुमारी पत्नी रामबाबू हरित नि० 41/154 पश्चीमाथ शाहागंज आगरा।
				49	निजी	कृषि	0 090	गोविन्द फार्म एण्ड रिसार्ट आगरा द्वारा पार्टनर पार्टनर गायन पुत्र विपिन गोयल निवासी 93 नार्थ विनय नगर कालोनी आगरा।
				50	निजी	कृषि	0 106	हितेश शिवानी पुत्र रमण शिवानी निवासी मकान न० 5 धौलपुर हाउस आगरा। श्रीमती सीमा अग्रवाल पत्नी अनिल अग्रवाल नि० 38 नार्थ इंदगाह कालोनी आगरा। विनय भार्गव, अजय भार्गव व दीपक भार्गव पुत्रगण बसन्त कुमार भार्गव निवासी, सरला बाग, दयाल बाग आगरा। कु० मोहिनी उम्र 13 साल पुत्री मनोज कुमार बती व संरक्षक पिता स्वयं निवासी 168 जयपुर हाउस आगरा। श्रीमती सपना पत्नी विनोद कुमार नि० आदर्श नगर आगरा। विनोद कुमार अग्रवाल पुत्र जगन प्रसाद अग्रवाल नि० 55 सुलभपुरम सिकन्दरा आगरा। श्रीमती डौली रतन पत्नी संजीव रतन नि० 506 कावेरी ग्रीन गैलाना आगरा। श्रीमती सरिता रतन पत्नी राजीव रतन नि० 93 एलोरा एन्कलेव दयालबाग आगरा। विनोद कुमार अग्रवाल पुत्र जगनप्रसाद अग्रवाल नि० न्यू आदर्श नगर बल्केश्वर आगरा।
				51	निजी	कृषि	0.172	मुनील चोपडा एच०यू०एफ० द्वारा कर्ता सुनील चोपडा पुत्र स्वः डी०पी० चोपडा नि० 191/16 माल रोड आगरा। श्रीमती रन्जू चोपडा पत्नी सुनील चोपडा नि० 191/16 माल रोड आगरा। आदेश नरायण गुप्ता पुत्र राकेश नरायण गुप्ता नि० कमला नगर आगरा। वैष्णो देवी चैरीटेबिल सोसाइटी द्वारा मन्त्री अजय कालरा

							पुत्र रोशन लाल कालरा निवासी बी 51 आलोक नगर आगरा। जय माँ वैष्णो देवी चरित्रविल सोसाइटी अरसेना द्वारा अध्यक्ष नवीन कालरा पुत्र रोशन लाल कालरा नि० बी 51 आलोक नगर आगरा। श्रीमती मन्जू अग्रवाल पत्नी शिव कुमार अग्रवाल नि० 31/406 लंगडे की चौकी आगरा। प्रतापमान पुत्र रोशन सिंह नि० ग्राम अरसेना आगरा। श्रीमती गूड़डी पत्नी सत्यपाल नि० अरसेना।
			52	निजी	कृषि	0.037	सुशील कुमार पुत्र रमेशचन्द्र सूरजमान सचिव रामबाग सहकारी आवास समित तल० आगरा निवासी 49 साकेत कालोनी आगरा। श्रीमती रन्जू चोपडा पत्नी सुशील कुमार चोपडा निवासी 151/6 माल रोड आगरा।
			गाँव का योग			1.278	
		(4) रूनकता	233	निजी	आबादी	0.080	आबादी
			274	निजी	आबादी	0.022	रामगोपाल पुत्र सकदुआ निवासी रूनकता आगरा। रामनाथ पुत्र रूपचन्द्र निवासी रूनकता। सतीश कुमार, वीरेन्द्र कुमार व कालीचरन पुत्रगण भ्रामपकाश निवासी रूनकता आगरा।
			302	निजी	अकृषक	0.016	सौदान सिंह पुत्र होतम सिंह, दुष्यन्त सिंह यशपाल ना० उम्र कृमश 15 वर्ष व 12 वर्ष सरक्षिका श्रीमती मनोरमा देवी पत्नी माणेश्याम नि० ग्राम रूनकता। निरोत्तम सिंह पुत्र भूमि जीत निवासी ग्राम रूनकता। कुमेन्द्र सिंह पुत्र निरोत्तम सिंह निवासी ग्राम रूनकता। राजकुमारी पत्नी छुट्टन सिंह, राजेन्द्र सिंह व भूपाल सिंह पुत्रगण महेन्द्र सिंह नि० ग्राम रूनकता। राजेश कुमार, दुर्गेश कुमार, पंकज कुमार पुत्रगण सूरजमान, श्रीमती विट्टन देवी पत्नी स्व सूरजमान निवासी ग्राम रूनकता। इन्द्रपाल सिंह, रामपाल सिंह व भरत सिंह पुत्रगण नौहवत सिंह नि० ग्राम रूनकता। प्रवीन कुमार, कुलदीप कुमार पुत्रगण मनीष कुमार, श्रीमती मुन्नी देवी पत्नी मनीष कुमार निवासी ग्राम रूनकता आगरा।
			303	निजी	अकृषक	0.007	सौदान सिंह पुत्र होतम सिंह, दुष्यन्त सिंह यशपाल ना० उम्र कृमश 15 वर्ष व 12 वर्ष सरक्षिका माँ श्रीमती मनारमा देवी पत्नी माणेश्याम नि० ग्राम रूनकता। निरोत्तम सिंह पुत्र भूमि जीत निवासी ग्राम रूनकता। कुमेन्द्र सिंह पुत्र निरोत्तम सिंह निवासी ग्राम रूनकता। राजकुमारी पत्नी छुट्टन सिंह, छुट्टन सिंह राजेन्द्र सिंह व भूपाल सिंह पुत्रगण महेन्द्र सिंह नि० ग्राम रूनकता। राजेश कुमार, दुर्गेश कुमार, पंकज कुमार पुत्रगण सूरजमान, श्रीमती विट्टन देवी पत्नी स्व सूरजमान निवासी ग्राम रूनकता। इन्द्रपाल सिंह, रामपाल सिंह व भरत सिंह

								पुत्रगण नौचत सिंह नि० ग्राम रूनकता। प्रवीन कुमार, कुलदीप कुमार पुत्रगण मनीष कुमार श्रीमती मुन्नी देवी पत्नी मनीष कुमार निवासी ग्राम रूनकता आगरा।
				304	निजी	बंजर	0.023	बंजर
				306	निजी	अकृषक/ आबादी (पेट्रोल पम्प)	0.020	देवेन्द्र सिंह पुत्र केसरी सिंह निवासी ग्राम रूनकता। बृजेश नारायण पुत्र कृष्ण गोपाल निवासी वी-91 आलोक नगर आगरा। ज्ञानेन्द्र सिंह, अनुप सिंह पुत्रगण कुमेन्द्र सिंह नि० ग्राम रूनकता, श्रीमती रामदेवी पत्नी स्व. कुमेन्द्र सिंह नि० ग्राम रूनकता। श्रीमती पदमावती पत्नी बृजेश नारायण नि० 9/186 बाग मुजफ्फर खॉ आगरा।
				315	निजी	बंजर	0.008	विशाल बंसल, नि० अंसल पुत्रगण प्रमोद कुमार बंसल नि० 7/330 बलनगज आगरा।
				316	निजी	कृषि	0.014	अशोक कुमार गोयल पुत्र कैलाश चन्द्र निवासी 31/12 गवतपाडा आगरा।
				318	निजी	कृषि	0.014	राघव माहेश्वरी उम लगभग 11 वर्ष पुत्र किशन माहेश्वरी संरक्षक पिता स्वयं श्री किशन माहेश्वरी निवासी सी-8 कमला नगर आगरा।
				319	निजी	अकृषक	0.019	अचल अग्रवाल अमित अग्रवाल व मनोज अग्रवाल पुत्रगण कन्हैयालाल अग्रवाल निवासी 105 नेहरू नगर आगरा।
				320	निजी	आबादी	0.008	प्रखर गायल नि० उम्र 13 वर्ष संरक्षक पिता स्वयं पुत्र सजय गायल निवासी ए 23 न्यू आगरा।
				2008	निजी	आबादी	0.027	अनिल कुमार एच०यू०एफ० व मनोज कुमार एच०यू०एफ० पुत्रगण कन्हैयालाल अग्रवाल निवासी मातीकटरा आगरा। कृष्ण कुमार शर्मा पुत्र बांके बिहारी शर्मा निवासी अर्जुन नगर आगरा।
				गाँव का योग			0.258	
				कुल योग			2.226	

[फा. सं. भाराप्र/सीएमयू/एमटीआर/6-लेनिंग/3डी आगरा/2011]

माया प्रकाश, उप-सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 20th January, 2012

S.O. 109(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O. 1272 (E), dated the 31st May, 2011, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii) and issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening / six laning, etc.), maintenance, management and operation of National Highway No. 2, on the stretch of land from km. 176.760 to km. 199.600 (Delhi-Agra Section) in District Agra in the State of Uttar Pradesh;

And whereas the substance of the said notification has been published in the "Hindustan" and "Amar Ujala", both dated the 8th July, 2011, under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declared that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km. 176.760 to Km. 199.600 (Delhi-Agra Section) of the National Highway No. 2 in the State of Uttar Pradesh.

serial number	Name of the district	Name of the taluk	Name of the village	Survey number	Type of land	Nature of land	Area (in hectares)	Name of person interested
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Agra	1 Agra	(1) Artauni	303	Private	Abadi	0.060	Omprakash Urf hariom son of Bahgwan Agrawal R/o city Agra, Smt Kanta Gara W/O Narendra Gara R/o A / 288 Vikaspuri New Delhi Jaigopal Dhal, Harishchand Dhal, Tilakraj S/O Ramjidas Dhal R/o 242 Jaipur house, Agra.
				Total of Village			0.060	
			(2) Baipur-Mustkil	1236	Private	Abadi	0.057	Jagdeesh Arora and Sunil Arora S/o Balkishan Arora R/o 23, Kandan road Agra
				1344	Private	Abadi	0.003	Hariharnath and Foolchand S/o Rameshchandra R/o B-212 Jaipur house karwan Alamganj Lohamandi Agra Smt Kamana Bajpayi w/o Sehkhari Bajpayi R/o A/141/A-1 Profesher colony Delhi Gate Agra Sehkhari Bajpayi s/o Jitendranatha Bajpayi R/o A/141/A-1 Profesher colony Delhi Gate Agra
				1345	Private	Abadi	0.006	Hariharnath and Foolchand S/o Rameshchand R/o B- 212 Jaipur house Karwan Alamganj Lohamandi, Agra Trvani Infrastructure Dovelopment company Ltd by partner Sumit mital s/o Harishchand mital R/o E-323 Kamla Nagar Agra Smt Kamna Bajpayi w/o Sehkhari Bajpayi R/o A/141/A-1 profesher colony Delhi Gate Agra Sehkhari Bajpayi s/o Jitendranath Bajpayi R/o A/141/A-1 profesher colony Delhi Gate Agra
				1346	Private	Abadi	0.006	Hariharnath s/o Rameshchand R/o B- 212 Jaipur house Alamganj Lohamandi Agra Foolchand s/o Rameshchand R/o 82 Amratraj Bahwan Jaipur house Agra

				1347	Private	Abadi	0.004	Hanhamath s/o Rameshchand R/o B- 212, Jaipur house Alanganj Lohamandi, Agra Foolchand s/o Rameshchand R/o 82 Amratraj Bahwan Jaipur house, Agra
				Total of Village			0.076	
		2x Kiravali	(1) Kitham	350	Private	Agriculture	0.060	Smt. Sunita Devi Dixit w/o B P. Dixit R/o -5/33 Madiya Katra, Agra.
				349	Private	Agriculture	0.036	Shri Sachin s/o Muralil R/o Reapura Jaat Tehsil and District Mathura Kamlesh and Krishan Kumar s/o Keshava Das R/o Reapura Jaat Tehsil and District Mathura Laxman Singh s/o Kanchan Singh R/o -29/133 Raja Mandi Agra Satyadev, Deendayal and Rajandra s/o Hukam Singh R/o Village Keetham, Agra
				348	Private	Agriculture	0.002	Kamlesh Kumar and Krishan Kumar s/o Keshav Das R/o Reapura Jaat Tehsil and District Mathura
				342	Private	Abadi	0.120	Mahendra Kaur w/o Sardar Trilochan Singh, Amanjeet Singh s/o Sardar Trilochan Singh R/o- D Kamla Nagar Agra Foolchand Bansal s/o Rameshchand Bansal, Smt. Maya Devi Bansal w/o Foolchand Bansal and Raj Bansal s/o Foolchand Bansal R/o - 82 Jaipur house Agra and Kunal Bansal minor age 14 years Gardian's self Mother Anu s/o Surendrajeet Singh, Anu w/o Surendrajeet Singh R/o -Agra Pramjeet Singh s/o Mahendra Singh R/o Lawyears colony Agra. Gurupreet Singh s/o Paramjeet Singh R/o Lawyears colony Agra.
				341	Private	Banger/ Abadi	0.032	Amit Bansal s/o Foolchand Bansal R/o - 82 Jaipur house Agra.
				339	Private	Banger	0.041	Umakant, Vranendra, Surendra S/o Jagdesh Prashad R/o 9/16 Jagdesh Nikathan Bagh Muzafar Kean, Agra
				Total of Village			0.291	

		(2) Chauma, Faraha	1	Private	Abadi	0 060	Smt Seela Devi w/o Jagdesh Prashad, Siv Narayan s/o Jagdesh Prashad R/o - C 1/27 Jagdesh Nikathan Bagh Muzafar Kann Agra.
			2	Private	Abadi	0 022	Anil Kumar Agrawal s/o Rameshwar Dayal Agrawal R/o 3/10/1 /Sita Kunj Colony Behind the District Court Agra
			3	Private	Abadi	0 034	Anil Kumar Agrawal s/o Rameshwar Dayal Agrawal R/o 3/10/1 /Sita Kunj Colony Behind the District Court Agra Prdeep Varsyane s/o Nathljal Varsyane R/o- 5 M G Road Agra
			11	Private	Agriculture	0 096	Smt Manita Yadav W/o Rajendra Singh Smt. Harish Bala W/o Mohan R/o 25/25 Naya Bansh Loha Mandi Agra. Smt. Seema Agrawal W/o Anil Kumar Agrawal R/o 38, North Eadgaha Agra Anil Kumar Garg s/o Govind Prashad R/o Vijay Nagar Colony Agra
			12	Private	Agriculture	0.051	Smt Seema Agrawal w/o Anil Kumar Agrawal R/o- 38 North Eadgaha Agra Smt Gita Agrawal Alias Joity Agrawal w/o Rajesh Agrawal R/o- 26 Sulabha Vihar, Galana Agra Umesh Kumar Gupta, Mukesh Kumar Gupta, Rajeev Kumar Gupta, Sanjay Kumar Gupta S/o Radeyshyam Gupta R/o-32A/D 770A/20 AD Balaji Nagar Agra Rajendra Kuur w/o Harwansh Singh R/o-A-A 65 Kamla Nagar Agra Ramesh Kumar s/o P.R.Siwani R/o Doulpur house Agra Jitendra Garg s/o Govind Parshad Agrawal R/o 88 Old Vijay Nagar Colony Agra. Anil Kumar Garg s/o Govind Prashad R/o 88 Old Vijay Nagar Colony Agra
					Total	0.263	

			(3) Arsaina	31	Private	Agriculture	0.082	Hazi Salimuddin and Hazi Saiuddin s/o Hazi Sababuddin R/o Gahtiya Mamu Banza, Agra. Etaras Suud Pvt. Ltd. Mr. India Estawilish Hovin Arts By Director and Othrised Prsident Garmano Pasipeolo s/o Gullimuro Pasipeolo R/o Office No.3 Thumbo Sami Road Kali Park Channai.
				32	Private	Agriculture	0.041	Etaras Suud Pvt. Ltd. Mr. India Estawilish Hovin Arts By Director and Othnsed Prsident Garmano Pasipeolo s/o Gullimuro Pasipeolo R/o Office No.3 Thumbo Sami Road Kali Park Channai.
				35	Private	Agriculture	0.189	Angnelal s/o Ram Singh R/o Kahtipada Loho Mandi, Agra. Faleh Singh and Tikam Singh s/o Angnelal R/o Jatpura Loha Mandi Agra. Smt. Gita w/o Dulatram R/o-45 Prbu Nagar Agra. Himansu Jain s/o Ashok Kumar Jain R/o 48, Sarwati Nagar Phase Frist Awadpuri, Bodla Agra. Smt. Seema Agrawal w/o Anil Agrawal R/o 38 North Eadgaha Colony Agra Tikam Chand s/o Kishanchand R/o-11/8 Ashok Nagar Agra. Smt. Eakta Devi w/o Dineshchand R/o 1/24 Khalsa Gali Rawatpada, Agra Umech Kumar Gupta Mukesh Kumar Gupta Rajeev Kumar Gupta Sanjay Kumar Gupta, s/o Radyeshyam Gupta R/o 32A / D 660 A/ 20 A Balagi Nagar Agra. Smt. Maya Devi Agrawal w/o Maheshchand Agrawal R/o- 84-85 Basant Vihar Kamla Nagar Agra Smt Kamlesh Jain w/o Mahendra Kumar Jain R/o-F 209 Kamla Nagar Agra. Smt. Megha Jain w/o Vikas Jain R/o-F 209 Kamla Nagar Agra Smt Savitri Devi w/o Babulal R/o 23 Gagadhar Daam Khandari Agra.
				36	Private	Agriculture	0.111	Shri Sanjeev Mital s/o Dinesh Prakash Agrawal R/o F-637 Kamla Nagar Agra Smt Amita Agrawal D/o Dr Prem Kumar Jain R/o Khatuli District Muzafamagar Shri Mukesh Kumar Agrawal s/o Kanta Prashad Agrawal R/o D- 15 Kamla Nagar Agra

				37	Private	Agriculture	0.096	Smt Puspa Devi Mital w/o Bhagvandas Mital R/o 2/9 Badli Haveli Namner Agra.
				38	Private	Agriculture	0.080	Heera Singh and Arjun s/o Luhare R/o village Arsena Agra. Smt. Prema w/o Luhare R/o village Arsena Agra. Siyaram s/o Gangaram R/o village Arsena Agra.
				39	Private	Agriculture	0.061	Heera Singh, Vijay Singh, Ramesh and Arjun s/o Luhare R/o village Arsena Agra Smt Prema w/o Luhare R/o village Arsena Agra.
				47	Private	Agriculture	0.144	Panna Lal Tandon s/o Piyare Lal Tandon R/o 40 Kandari Agra Present Residence Kelash Road Sikandra Agra
				48	Private	Agriculture	0.069	Smt Kamles Kumari w/o Rambabu Harit R/o 41/158 Prthavinath Sahganj Agra.
				49	Private	Agriculture	0.090	Orkid Farm And Resort Agra by Partner Mohit Goyal s/o Vipin Goyal R/o 93-North Vijay Nagar Colony Agra.
				50	Private	Agriculture	0.106	Hitesh sivani s/o Ramesh Sivani R/o -House No:5 Dholpur House Agra Smt. Seema Agrawal w/o Anil Agrawal R/o 38 North Eadgaha Colony Agra. Vinay Bhargav, Ajay Bhargav and Deepak Bhargav s/o Basant Kumar Bhargav R/o Sarla Bagh, DayalBagh Agra Km Mohini minor age 13 year D/o manoj Kumar Bali and Gardian Father Self R/o 168 Jaipur House Agra Smt Sapna w/o Vinod Kumar R/o Adarsh Nagar Agra. Vinod Kumar Agrawal s/o Jagan Prashad Agrawal R/o 55 Sulsbha Puram sikandra Agra Smt Dolly Ratan w/o Sanjeev Ratan R/o Kavari Green Galana Agra Smt Santa Ratan w/o Rajeev Ratan R/o 93 Aelora Enkelava DayalBagh Agra Vinod Kumar s/o Jagan Prashad Agrawal R/o New Adarsh Nagar, Balkeswer Agra.

				51	Private	Agriculture	0 172	Sunil Chupada H U F by Karta Sunil chupada H U F s/o Late D P Chupada R/o 191/16 Maal Road Agra. Smt Ranju Chupada w/o Sunil Chupada R/o 191/16 Maal Road Agra. Adesh Narayan Gupta s/o Rakesh Narayan Gupta R/o Kamla Nagar Agra Vashno Devi Cheritable Sosity By Minister Ajay Kalara s/o Roshan Kalara R/o B-51 Alok Nagar, Agra Jai Maam Vashno Devi Cheritable Sosity By Prisedent Naveen Kalara R/o B-51, Alok Nagar Agra Smt Manju Agrawal w/o Siv Kumar Agrawal R/o 31/406 Lagde Ki Choki Agra Pratap Maan s/o Roshanlal R/o village Arsena, Agra Smt Guudi w/o Satyapal R/o Arsena
				52	Private	Agriculture	0 037	Susil Kumar s/o Ramesh Chand and Property Sachev Rambagh Sehkar Avas Samiti Ltd Agra Smt Ranju Chupada w/o Susil Kumar chupada R/o 151/6 Maal Road Agra
				Total of Village			1.278	
		(4) Runakata	233	Private	Abadi		0 080	Abadi
			274	Private	Abadi		0 022	Ramgopal s/o Sakdua R/o Runkata, Agra. Ramnath s/o Rupchandra R/o Runkata, Satish Kumar, Virendra Kumar and Kalicharan s/o Omprakash R/o Runkata Agra
			302	Private	Non Agriculture		0 016	Sodan Singh s/o Hotam Singh, Dusyant Singh, Yespal minor age 15 years and 12 years Gardian's Smt Manorama Devi w/o Mangelal R/o Village Runkata, Agra. Nirotam Singh s/o Bumjeet R/o village Runkata Agra Kumendra Singh s/o Nirotam Singh R/o village Runkata. Rajkumari w/o Chuutan Singh, Rajendra Singh and Bhupal singh s/o Mahendra Singh R/o village Runkata Rajesh Kumar, Durgesh Kumar, Pankaj Kumar s/o Suraj Bahn, Smt. Vitahan Devi w/o Late Suraj Bhan R/o village Runakata. Endarpal Singh, Rampal Singh and Bahrat Singh s/o Nhovat Singh R/o village

							Runakata Prveen Kumar, Kuldeep Kumar s/o Manish Kumar, Smt Munni Devi w/o Manish Kumar R/o village Runkata, Agra
			303	Private	Non Agriculture	0 007	Sodan Singh s/o Hotam Singh, Dusyant Singh, Yespal minor age 15 years and 12 years Gardian's Smt Manorama Devi w/o Mangelal R/o Village Runkata, Agra Nirotam Singh s/o Bumljeet R/o village Runkata Agra Kumendra Singh s/o Nirotam Singh R/o village Runkata Rajkumar w/o Chuutan Singh, Rajendra Singh and Bhupal Singh s/o Mahendra Singh R/o village Runkata. Rajesh Kumar, Durgesh Kumar, Pankaj Kumar s/o Suraj Bahn, Smt. Vitahan Devi w/o Late Suraj Bhan R/o village Runakata. Endarpal Singh, Rampal Singh and Bahrat Singh s/o Nhovat Singh R/o village Runakata. Prveen Kumar, Kuldeep Kumar s/o Manish Kumar, Smt. Munni Devi w/o Manish Kumar R/o village Runkata, Agra.
			304	Private	Banger	0.023	Banjar
			306	Private	Non Agriculture	0.020	Devendra Singh s/o Kesari Singh R/o village Runkata. Brajesh Narayan s/o Kirashan Gopal R/o B-91 Alok Nagar Agra. Gyanendre, Anop Singh s/o Kumendra Singh R/o villege Runakata, Smt. Rama Devi w/o Late Kumendra Singh R/o village Runkate. Smt Padamawati w/o Brijesh Narayan R/o 9/166 Bagh Muzafar Kaen Agra.
			315	Private	Banger	0.008	Vihal Bansal and Vidhit Banaal s/o Pramod Kumar Bansal R/o 7/330 Belanganj Agra
			318	Private	Agriculture	0.014	Ashok Kumar Goyel s/o Kelasha chandra R/o 31/12 Rawat Padha Agra.
			318	Private	Agriculture	0.014	Ragawh Maheswari minor Age 11 Years s/o Kishan Mahaswari Gardian self Shri Kishan Maheswari R/o C-8 Kamla Nagra Agra

				319	Private	Non Agriculture	0.019	Achal Agrawal, Amit Agrawal and Manoj Agrawal s/o Kanhiyalal Agrawal mm R/o 105 Nehru Nagar, Agra.
				320	Private	Abadi	0.008	Prakhar Goyal minor age 13 years Gradian self father s/o Sanjay goyel R/o A-23 New Agra.
				2008	Pnvate	Abadi	0.027	Anil Kumar H.U.F. and Manoj Kumar H.U.F. s/o Kanhiyalal Agrawal R/o Moti Katara Agra. Kirshan Kumar Sharma s/o Bakebehari Sharma R/o Arjun Nagar. Agra.
				Total of Village			0.258	
				Grand Total			2.226	

[F No. NHA/CMU/MTR/6-laning/3D-Agra/2011]

MAYA PRAKASH, Dy. Secy.